

कक्षा – 3A&B

हिन्दी

पाठ – टिपटिपवा

❖ कठिन शब्द :-

- 1) बहुत
- 2) बुढ़िया
- 3) कहानियाँ
- 4) मूसलाधार
- 5) खीझकर
- 6) मुसीबत
- 7) घबराया
- 8) परेशान
- 9) बेसब्री
- 10) उलीचकर
- 11) बाँचकर
- 12) पहुँचकर
- 13) चुपचाप
- 14) टपकते
- 15) कचूमर

❖ शब्दों के अर्थ लिखो :-

- 1) किस्मत - भाग्य
- 2) बचवा - बच्चा
- 3) झटपट - तुरन्त
- 4) बाँचकर - देखकर
- 5) पोथी - बड़ी पुस्तक
- 6) मूसलाधार - भयंकर
- 7) बुढ़िया - बूढ़ी औरत

8) लठ - बड़ी लाठी

9) दम दबाकर भागना - दरकार चुपचाप भागना

❖ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो :-

1. प्रश्न 1- इस कहानी में लगता है कि सभी परेशान थे ? बताओ कौन किस से परेशान था ?

उत्तर - 1- बुढ़िया - झोपड़ी में टपकते हुए बारिश के पानी से !

2- शेर - जोरदार बारिश से और टिपटिपवा से !

3- धोबी - गधे के गायब हो जाने से !

4- पंडित जी - घर में भरे बारिश के पानी को उलीचते - उलीचते थकने से !

प्रश्न 2- कहानी में टिपटिपवा कौन था ? तुम किस - किस को टिपटिपवा कहोगे ?

उत्तर - इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी से टपकता हुआ बारिश का पानी है ! हम धोबी और उसके मोटे लाठ को टिपटिपवा कहेंगे !

प्रश्न 3- धोबी ने खूँटे से किसे बांध दिया ?

उत्तर - धोबी ने खूँटे से बाघ को बांध दिया!

प्रश्न 6- बारिश से बचने के लिए तुम कौन - कौन सी चीजों का प्रयोग करते हो ?

उत्तर - छाता ,रेन कोट

❖ लिंग बदलो :-

1) पत्नी - पति

2) बुढ़िया - बूढ़ा

3) धोबी - धोबिन

4) नाग - नागिन

- 5) राजा - रानी
6) पोता - पोती
7) दादा - दादी
8) पंडित - पंडिताइन
9) बाघ - बाघिन

❖ वचन बदलो :-

- 1) पोता - पोते
2) पोथी - पोथिया
3) कहानी - कहानियाँ
4) झोपड़ी - झोपड़ियाँ
5) पत्नी - पत्नियाँ
6) गधा - गधे
7) खूँटा - खूँटे

❖ विलोम शब्द लिखो:-

- 1) आगे - पीछे
2) सुबह - शाम
3) ज्ञानी - मूर्ख
4) गाँव - शहर
5) दिन - रात
6) डर - निडर
7) मोटा - पतला

❖ आवाज़ पहचानो और लिखो:-

- 1) टिपटिप – बारिश का पनि टपकने पर
2) खर्खर् - खर्खर् - तेज़ सांस लेने पर
3) भिन्न- भिन्न – मक्खी के मंडराने पर
4) ठक – ठक – दरवाजा खटखटाने पर
5) तड़-तड़ – वर्षा की बूंदों का टीन पर गिरने पर
6) भक – भक – आग लगने पर

❖ प्रश्नों के उत्तर दो :-

1) -धोबी ने बाघ को किस से बांध दिया था ?

उत्तर - धोबी ने बाघ को खूँटे से बांध दिया था !

2) पोता किस से रोज़ कहानी सुनता था ?

उत्तर- पोता दादी से रोज़ कहानी सुनता था !

3) बुढ़िया की झोपड़ी में पानी कहाँ से टपक रहा था ?

उत्तर - बुढ़िया की झोपड़ी में पानी छत से टपक रहा था !

4) कौन न शेर से डरता था न बाघ से ?

उत्तर –दादी (बुढ़िया) न शेर से डरती थी न बाघ से !

5) धोबी अपने गधे का पता पूछने किसके पास गया ?

उत्तर – धोबी अपने गधे का पता पूछने पंडित के पास गया !

6) बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था ?

उत्तर- बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ बैठा था !